



## इज़रायल-हजिबुल्लाह संघर्ष और युद्ध सदिधांत

### प्रारंभिक परीक्षा:

[इज़रायल](#), [फलिसितीन](#), [मध्य-पूर्व](#), [अरब-वशिव](#), योम-कपिपुर युद्ध, [जायोनीवाद](#), [अल-अक्सा](#), [गाजा पट्टी](#), [यरुशलम](#), [फलिसितीनी मुक्ति संगठन \(PLO\)](#)

### मुख्य वषिय:

[इज़रायल-फलिसितीन संघर्ष](#) का प्रभाव, युद्ध और शांति के लिये नैतिक आधार और संबंधित मुद्दे

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल के संघर्षों जैसे कि लंबे समय से चल रहा [इज़रायल-हजिबुल्लाह युद्ध](#), [रूस-यूक्रेन युद्ध](#) तथा वशिव के कई अन्य भागों में अशांति से इस वमिर्श को बढ़ावा मिला है कि क्या बड़े पैमाने पर हिसा को उचित ठहराया जा सकता है।

- तीन प्रमुख वचिरधाराओं का इस मामले पर अलग-अलग नैतिक दृष्टिकोण है जिससे युद्ध की नैतिकता के संबंध में अलग-अलग दृष्टिकोण मलिते हैं, जिससे यह मुद्दा वर्तमान में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

### इज़रायल और हजिबुल्लाह के बीच संघर्ष के क्या कारण हैं?

- संघर्ष की उत्पत्ति (1982):
  - वर्ष 1948 में [इज़रायल राज्य](#) की स्थापना के कारण 750,000 से अधिक फलिसितीनी अरबों को बड़े पैमाने पर वसिस्थापित होना पड़ा (वर्ष 1948 के अरब-इज़रायल युद्ध के दौरान)।
  - इनमें से कई शरणार्थियों ने दक्षिणी लेबनान में शरण ली, जिससे इस कषेत्र में तनाव बढ़ गया। ईसाई मलिशिया और फलिसितीनी समूहों सहित वभिन्न लेबनानी गुटों के बीच संघर्षों से यह स्थिति और भी जटिल हो गई।
  - 1960 और 1970 के दशक के दौरान दक्षिणी लेबनान में [फलिसितीन मुक्ति संगठन \(PLO\)](#) की उपस्थिति से इज़रायल की सुरक्षा चिंताएँ बढ़ गईं।
  - उत्तरी इज़रायली शहरों पर PLO के हमलों की प्रतिक्रिया में इज़रायल ने लेबनान में सैन्य अभियान शुरू किया (वर्ष 1978 और 1982), जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक इसका कब्ज़ा रहने से अंततः [हजिबुल्लाह का उदय हुआ](#)।
  - हजिबुल्लाह की स्थापना वर्ष 1982 में ईरानी समर्थन से [इज़रायल के आक्रमण और चल रहे गृहयुद्ध की प्रतिक्रिया में हुई थी](#), जिसका उद्देश्य [इज़रायल के कब्जे का वरिोध करना तथा लेबनानी संप्रभुता की रक्षा करना था](#)।
  - [हिसा में वृद्धि \(1980-1990 का दशक\)](#): 1980 के दशक के दौरान हजिबुल्लाह ने लेबनान में [इज़रायली सेना](#) और उनके सहयोगियों के खिलाफ गुरलिला युद्ध चलाया (वशिष रूप से वर्ष 1983 में अमेरिकी और फ्रॉंसीसी बैरकों पर बमबारी की) जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए।
  - वर्ष 1985 तक जब हजिबुल्लाह की सैन्य शक्ति बढ़ गयी तो इज़रायल दक्षिणी लेबनान में एक स्व-घोषित ["सुरक्षा कषेत्र"](#) में चला गया, जिस पर उसका वर्ष 2000 तक कब्ज़ा रहा।
  - [राजनीतिक एकीकरण और शत्रुता की नरितरता \(1990 का दशक\)](#): लेबनानी गृहयुद्ध के बाद [हजिबुल्लाह राजनीति में एकीकृत हो गया और इसने संसद में सीटें हासिल कीं](#), जिससे [शिया समुदायों के बीच इसकी वैधता बढ़ गई](#)।
  - वर्ष 1993 में इज़रायल ने हजिबुल्लाह के हमलों की प्रतिक्रिया में "ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी" शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप लेबनान में बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए तथा बुनयादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा, जिससे [सात दविसीय युद्ध \(1993\) के रूप में जाना जाता है](#)।
  - [जुलाई युद्ध \(2006\)](#): जुलाई 2006 में हजिबुल्लाह ने दो इज़रायली सैनिकों को पकड़ लिया, जिसके कारण इज़रायली सेना ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की। यह संघर्ष 34 दिनों तक चला और इसके परिणामस्वरूप लगभग 1,200 लेबनानी तथा 158 इज़रायली सैनिक मारे गए। इस युद्ध से हजिबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं पर प्रकाश पड़ने के साथ लेबनानी और कषेत्रीय राजनीति में एक प्रमुख हतिधारक के रूप में इसकी स्थिति मज़बूत हुई।

- **हालिया घटनाक्रम (2010 से वर्तमान तक):**
  - सीरियाई गृहयुद्ध में भागीदारी: वर्ष 2012 से हजिबुल्लाह ने असद शासन का समर्थन करने के लिये सीरियाई गृहयुद्ध में हस्तक्षेप किया, जिससे आलोचना का सामना करने के बावजूद उसे बहुमूल्य युद्ध अनुभव प्राप्त हुआ।
  - गाजा संघर्ष (2023): अक्टूबर 2023 में हजिबुल्लाह ने बढ़ती इजरायली सैन्य कार्रवाइयों के बीचगाजा के साथ एकजुटता दिखाते हुए एक व्यापक अभियान शुरू किया, जिससे सीमा पार शत्रुता तेज़ हो गई।
  - हाल ही में तनाव में वृद्धि: प्रमुख हजिबुल्लाह नेताओं की हत्या के साथ सितंबर 2024 में [वॉकी-टॉकी और पेजर वसिफोट](#) से तनाव बढ़ने के साथ हजिबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई से संघर्ष की संभावना को बढ़ावा मिला है।

## युद्ध और शांति का नैतिक आधार क्या है?

न्यायपूर्ण युद्ध सदिधांत (JWT): एक मानक दृष्टिकोण:

- **परिचय:**
  - न्यायपूर्ण युद्ध सदिधांत (JWT) अंतरराष्ट्रीय कानून में एक महत्वपूर्ण ढाँचा है, जिसे मुख्य रूप से ऑगस्टीन और एक्विनास जैसे दार्शनिकों द्वारा व्यक्त किया गया है।
  - इसके अनुसार कुछ स्थितियों में युद्ध को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है, हालांकि यह केवल अपनी रणनीतिक या साहसिक प्रकृति के कारण सराहनीय नहीं है।
  - इसमें युद्ध को वशिष्ट परिस्थितियों में सामूहिक राजनीतिक हिंसा का स्वीकार्य रूप माना गया है।
- **JWT के भाग:**
  - **जूस एड बेलम (जस्ट कॉज़):** यह सदिधांत युद्ध शुरू करने के औचित्य पर केंद्रित है। इसके न्यायपूर्ण कारणों में आत्मरक्षा, भविष्य में आक्रमण को रोकना और चल रहे अत्याचारों को रोकना शामिल है।
    - उदाहरण: **द्वितीय विश्व युद्ध** में मितर देशों की सेनाओं के हस्तक्षेप को अक्सर एक न्यायपूर्ण युद्ध के रूप में उद्धृत किया गया, जिसे धुरी शक्तियों द्वारा किये गए आक्रमण और अत्याचारों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था।
  - **जूस इन बेललो (सही आचरण):** यह सदिधांत बताता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। यह नागरिक हताहतों को कम करने, अनावश्यक पीड़ा से बचने और युद्ध में शामिल न होने वालों के अधिकारों का सम्मान करने पर बल देता है।
    - इन सदिधांतों के उल्लंघन से युद्ध अपराधों को जन्म मिल सकता है, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून में उल्लिखित है।
  - **जूस पोस्ट बेलम (न्यायपूर्ण शांति):** यह सदिधांत युद्ध के बाद न्यायपूर्ण और स्थायी शांति पर केंद्रित है। यह हारने वालों के साथ उचित व्यवहार, पुनर्निर्माण प्रयासों और संघर्ष के मूल कारणों को हल करने पर केंद्रित है।

## यथार्थवाद: सत्ता की राजनीति

दृष्टिकोण:

- यथार्थवाद का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक विचारों का कोई स्थान नहीं है।
- यथार्थवादियों के अनुसार, राज्य एक अराजक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कार्य करते हैं जहाँ शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है।
  - उनका मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और सत्ता की खोज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रेरक शक्तियाँ हैं और युद्ध इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन बन जाता है।
- इसे थ्यूसीडाइड्स और मैकियावेली जैसे दार्शनिकों ने व्यक्त किया था।
- ये न्यायपूर्ण युद्ध सदिधांत की अव्यावहारिक एवं आदर्शवादी होने के कारण आलोचना करते हैं तथा तर्क देते हैं कि नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करने से राज्य की स्वयं की रक्षा करने तथा अपने हितों को आगे बढ़ाने की क्षमता कमजोर हो जाती है।
- यथार्थवाद की आलोचना: यथार्थवाद के आलोचक कहते हैं कि नैतिकता की पूर्ण अवहेलना से क्रूर और अनावश्यक युद्धों को जन्म मिल सकता है।
- उदाहरण: **प्रथम विश्व युद्ध** और **द्वितीय विश्व युद्ध** की पूर्व संघ्या जैसी ऐतिहासिक घटनाएँ दर्शाती हैं कि राज्य नैतिकता की तुलना में रणनीतिक गणनाओं को प्राथमिकता देते हैं।
- क्यूबा मिसाइल संकट से इस यथार्थवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश पड़ता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा नैतिक चिंताओं से अधिक महत्वपूर्ण है।
- शांतिवाद: सभी प्रकार की हिंसा से घृणा
  - विचार:
    - शांतिप्रियता युद्ध सहित सभी प्रकार की हिंसा को अस्वीकार करते हैं, तथा **महात्मा गांधी** और **मार्टिन लूथर किंग जूनियर** जैसे नेताओं के आदर्शों के साथ तालमेल बिठाते हुए संघर्षों को हल करने के लिये अहिंसक प्रतिरोध और कूटनीति को बढ़ावा देते हैं।
    - शांतिवादी न्यायपूर्ण युद्ध सदिधांत की आलोचना करते हुए तर्क देते हैं कि युद्ध का कोई भी औचित्य अधिक हिंसा और पीड़ा को जन्म देता है।
    - उनका मानना है कि रचनात्मक और सतत अहिंसक तरीकों से सशस्त्र संघर्ष की तुलना में अधिक स्थायी रूप से शांति प्राप्त की जा सकती है।
  - शांतिवाद की आलोचना:
    - आलोचकों का मानना है कि अपराधों को रोकने या समाप्त करने के लिये कभी-कभी सशस्त्र बल की आवश्यकता पड़ सकती है, तथा उनका तर्क है कि आक्रामकता एवं बुराई से निपटने के लिये शांतिवाद अवास्तविक है।

## हजिबुल्लाह क्या है?

- हजिबुल्लाह (Hezbollah) का अनुवाद "ईश्वर की पार्टी (Party of God)" है। लेबनान स्थिति एक शिया मलिशिया और राजनीतिक पार्टी है।
- हजिबुल्लाह की उत्पत्ति:
  - हजिबुल्लाह की उत्पत्ति वर्ष 1982 में लेबनानी गृहयुद्ध (1975-1990) के दौरान लेबनान पर इजरायल के आक्रमण के विरुद्ध एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में की गई थी।
  - इसे लेबनान के शिया समुदाय, ईरान और उसके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) तथा वर्ष 1979 में ईरान (Iran) में एक इस्लामी क्रांति से प्रभावित फिलिस्तीनी समूहों से समर्थन प्राप्त हुआ।
- सामरिक एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र (CSIS) के अनुसार, इसे वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक सशस्त्र गैर-राज्य अभिकर्ताओं में से एक माना जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल समेत कई देशों ने हजिबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

## भारत की वदेश नीतिके सिद्धांत क्या हैं?

- पंचशील (पाँच सिद्धांत): इसे सर्वप्रथम वर्ष 1954 में भारत और चीन के तबित क्षेत्र के बीच व्यापार समझौते में औपचारिक रूप दिया गया था, जसिने भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बुनियाद रखी। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं:
  - सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना
  - एक-दूसरे देश पर आक्रमण न करना
  - दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
  - परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना
  - शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीतिका पालन करना
- वसुधैव कुटुंबकम (संपूर्ण विश्व एक परिवार है): भारत विश्व को एक वैश्विक परिवार के रूप में देखता है, तथासबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सद्भाव, सामूहिक विकास और राष्ट्रों के बीच विश्वास को बढ़ावा देता है।
  - गुजराल सिद्धांत भारत के अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नरिदेशित करने के लिये 5 सिद्धांतों का एक समूह है, जो मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण संबंधों के महत्त्व को मान्यता देता है। ये 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं:
    - भारत बाँगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को पारस्परिकता की अपेक्षा किये बिना, सद्भावना और विश्वास के साथ सहायता प्रदान करता है।
    - कसि भी दक्षिण एशियाई देश को अपने भूभाग का उपयोग क्षेत्र के कसि अन्य देश के हितों के विरुद्ध नहीं करने देना चाहिये।
    - देशों को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिये।
    - सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिये।
    - विवादों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से कथि जाना चाहिये।
- सक्रिय एवं नषिपक्ष सहायता: भारत सक्रिय सहायता के माध्यम से लोकतंत्र और विकास को बढ़ावा देता है, अपत्ति संबंधित सरकार की सहमतसे।
  - यह साझेदार देशों में क्षमता नरिमाण और संस्थागत सुदृढीकरण पर बल देता है, जैसा क अफगानस्तान में भारत के प्रयासों में देखा गया है।
- संयुक्त राष्ट्र के लिये समर्थन: भारत संयुक्त राष्ट्र (UN) का संस्थापक सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का समर्थन करता है।
- सामरिक स्वायत्तता: इसमें स्वतंत्र नरिणय लेने पर ज़ोर दिया गया है और भारत साझेदारी का पक्षधर है, लेकिन औपचारिक सैन्य गठबंधनों से बचता है, तथा अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लचीलापन बनाए रखता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न 1. नमिनलखिति में से दक्षिण-पश्चिम एशिया का कौन-सा देश भूमध्य सागर की तरफ नहीं खुलता है? (2015)

- (a) सीरिया
- (b) जॉर्डन
- (c) लेबनान
- (d) इजरायल

उत्तर: (b)

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित पद "टू-स्टेट सोल्यूशन" कसिकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है। (2018)

- (a) चीन

- (b) इज़रायल
- (c) इराक
- (d) यमन

उत्तर: (b)

**??????**

प्रश्न : “भारत के इज़रायल के साथ संबंधों ने हाल ही में एक ऐसी गहराई और वविधिता हासलि की है, जसिकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है ।” वविचना कीजयि । (मुख्य परीक्षा- 2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/israel-hezbollah-conflict-and-war-theory>

